



## भिन्नों का गुणन (मिश्रित अंश)

नाम: \_\_\_\_\_

दिनांक: \_\_\_\_\_ स्कोर: \_\_\_\_\_

$$\frac{5}{9} \times \frac{3}{7} =$$

$$\frac{3}{5} \times \frac{2}{3} =$$

$$\frac{4}{8} \times \frac{4}{8} =$$

$$\frac{2}{7} \times \frac{1}{4} =$$

$$\frac{2}{5} \times \frac{3}{5} =$$

$$\frac{2}{8} \times \frac{2}{5} =$$

$$1\frac{2}{5} \times \frac{3}{4} =$$

$$\frac{4}{8} \times \frac{2}{5} =$$

$$1\frac{1}{6} \times \frac{4}{8} =$$

$$\frac{5}{8} \times \frac{4}{9} =$$



## भिन्नों का गुणन (मिश्रित अंश)

नाम: \_\_\_\_\_

दिनांक: \_\_\_\_\_ स्कोर: \_\_\_\_\_

$$\frac{5}{9} \times \frac{3}{7} = \frac{5}{21}$$

$$\frac{3}{5} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{5}$$

$$\frac{4}{8} \times \frac{4}{8} = \frac{1}{4}$$

$$\frac{2}{7} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{14}$$

$$\frac{2}{5} \times \frac{3}{5} = \frac{6}{25}$$

$$\frac{2}{8} \times \frac{2}{5} = \frac{1}{10}$$

$$1\frac{2}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{21}{20} = 1\frac{1}{20}$$

$$\frac{4}{8} \times \frac{2}{5} = \frac{1}{5}$$

$$1\frac{1}{6} \times \frac{4}{8} = \frac{7}{12}$$

$$\frac{5}{8} \times \frac{4}{9} = \frac{5}{18}$$